

M.A. (Home Economics) (NEP Pattern) Semester-III
MANEPHomC3 - Home Management Paper-I

P. Pages : 3

Time : Three Hours



GUG/W/24/16075

Max. Marks : 80

-
- Notes :
1. All question are compulsory.
 2. All question carry equal marks.
 3. Draw diagram wherever necessary.

- 1.** What is energy management? Write in detail about nature of energy and types of fatigue. **20**

OR

Define Ergonomics. Write selection of household equipment according to ergonomics.

- 2.** Write the different types of determinants of management process. Write in detail about any three. **20**

OR

Write the definition of financial security of a family and what are the different avenues of investment.

- 3.** Write in short. **20**
- a) Time management demands.
 - b) Principles of mind management.

OR

- c) Stages of the family life cycle.
- d) Ergonomics-definition and scope.

- 4.** Write in short. **20**
- a) Family health and Recreation management.
 - b) Saving scheme PPF.

OR

- c) Contribution of private agencies in family health.
- d) Investment-Guidelines, Rules.

M.A. (Home Economics) (NEP Pattern) Semester-III
MANEPHomC3 - Home Management Paper-I

Time : Three Hours

Max. Marks : 80

- सुचना :- 1. सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.
2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहे.
3. आवश्यक तेथे आकृत्या काढा.

1. ऊर्जा व्यवस्थापन म्हणजे काय? उर्जेचे महत्व व थकण्याचे प्रकार सविस्तर लिहा. 20

किंवा

अर्गोनॉमिक्स (कार्याभ्यास) म्हणजे काय? अर्गोनॉमिक्सनुसार घरगुती उपकरणांची निवड करा.

2. व्यवस्थापन प्रक्रियेचे विविध निर्णायक घटक कोणते ते लिहून कोणत्याही तीनचे सविस्तर वर्णन करा. 20

किंवा

कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षिततेची व्याख्या लिहून गुंतवणूकीचे वेगवेगळे मार्ग कोणते ते लिहा.

3. थोडक्यात लिहा. 20

- अ) वेळ व्यवस्थापनाची मागणी.
ब) मनाच्या व्यवस्थापनाची तत्वे.

किंवा

- क) कौटुंबिक जीवनचक्राच्या अवस्था.
ड) अर्गोनॉमिक्स - व्याख्या आणि व्याप्ती.

4. थोडक्यात लिहा. 20

- अ) कौटुंबिक आरोग्य आणि मनोरंजन व्यवस्थापन.
ब) बचत योजना PPF.

किंवा

- क) खाजगी संस्थांचे कौटुंबिक स्वास्थात योगदान.
ड) गुंतवणूक-मार्गदर्शक तत्वे, नियम

M.A. (Home Economics) (NEP Pattern) Semester-III
MANEPHomC3 - Home Management Paper-I

Time : Three Hours

Max. Marks : 80

- सुचनाएँ :- 1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. आवश्यक स्थानपर आकृतियाँ निकालिए।

1. व्यवस्थापन क्या है। उर्जा का स्वरूप तथा थकावट के प्रकारविस्तारपूर्वक लिखिए। 20

अथवा

अर्गोनॉमिक्स का अर्थ लिखकर उस के अनुसार घरेलू उपयोग में आनेवाले साधनों का चयन किजिए।

2. व्यवस्थापन प्रक्रिया के विभिन्न निर्णायक घटकों के नाम लिखकर किन्हीं तीन का सविस्तर वर्णन किजिए। 20

अथवा

परिवारीक आर्थिक सुरक्षितता की परिभाषा लिखकर गुंतवणूक के विभिन्न मार्ग कौणसे हैं। लिखिए।

3. संक्षेप में लिखिए। 20
अ) समय व्यवस्थापन की मांग।
ब) मन के व्यवस्थापन की तत्वे।

अथवा

- क) पारिवारीक जीवनचक्र की अवस्थाएँ।
ड) अर्गोनॉमिक्स - परिभाषा और व्याप्ती।

4. संक्षेप में लिखिए। 20
अ) पारिवारीक आरोग्य और मनोरंजन व्यवस्थापन।
ब) बचत योजना PPF

अथवा

- क) पारिवारीक स्वास्थ्य का खाजगी संस्था में योगदान।
ड) गुंतवणूक-मार्गदर्शक तत्व, नियम
